

[This question paper contains 7 printed pages]

Your Roll No. :

Sl. No. of Q. Paper : **3423 I**

Unique Paper Code : 6132353603

Name of the Paper : Health Insurance

Name of the Course : **B.A.(VS) Insurance
Management (NEP)**

Semester : VI

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for Candidates :

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

- (a) Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.

इस प्रश्न-पत्र के प्राप्त होने पर तुरंत शीर्ष पर अपना रोल नंबर लिखें।

- (b) Answer may be written either in **English** or in **Hindi**; but the same medium should be used throughout the paper.

इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तर एक ही भाषा में होने चाहिए।

P.T.O.

(c) Answer any **five** questions.

किसी भी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(d) **All** questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Describe the salient features and importance of health insurance in managing healthcare risks financing in the present-day environment.

वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य सेवा जोखिमों के वित्तपोषण के प्रबंधन में स्वास्थ्य बीमा की प्रमुख विशेषताओं और महत्व का वर्णन कीजिए।

2. Evaluate the prevalent health insurance products available in India. Also discuss the scope and future prospects of health insurance in the Indian healthcare system.

भारत में उपलब्ध प्रचलित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों का मूल्यांकन कीजिए। साथ ही भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में स्वास्थ्य बीमा के दायरे और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए।

(c) Micro health insurance.

सूक्ष्म स्वास्थ्य बीमा।

(d) Group indemnity plans.

समूह क्षतिपूर्ण योजनाएँ।

भारत में स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र के प्रमुख भागीदारों का वर्णन कीजिए तथा स्वास्थ्य बीमा बाजार में उनकी भूमिकाओं को स्पष्ट कीजिए। दीर्घकालिक देखभाल बीमा के लाभों और महत्व को स्पष्ट कीजिए, जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य व्ययों के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

7. Discuss the features of critical illness insurance policies. Also explain the concept and importance of health insurance riders in enhancing insurance coverage.

गंभीर बीमारी बीमा पॉलिसियों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। साथ ही बीमा कवरेज को सुदृढ़ करने में स्वास्थ्य बीमा राइडर्स की अवधारणा और महत्व को स्पष्ट कीजिए।

8. Write short notes on any **three** of the following:

निम्नलिखित में से किसी **तीन** पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) Social security insurance schemes in health insurance.

स्वास्थ्य बीमा में सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएँ।

- (b) Tackling inflated and fraudulent claims.

बढ़े हुए और धोखाधड़ीपूर्ण दावों से निपटना।

3. Critically evaluate the regulations issued by the insurance regulatory and development authority of India (IRDAI) for third-party administrators in health insurance. Examine the impact of preventive healthcare and customer responsiveness in controlling the costs incurred by health insurers.

स्वास्थ्य बीमा में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा जारी विनियमों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा वहन की जाने वाली लागत को नियंत्रित करने में निवारक स्वास्थ्य देखभाल और ग्राहक उत्तरदायित्व के प्रभाव का परीक्षण कीजिए।

4. Discuss the various covers provided under health insurance policies. Critically evaluate the major conditions, and exclusions in health insurance policies.

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले विभिन्न कवरेजों पर चर्चा कीजिए। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में प्रमुख शर्तों और अपवर्जनों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

5. Mr. Kanav Sharma, aged 35 years, lives in a metropolitan city with his spouse and two children. He is a non-smoker and does not consume alcohol. The overall Body Mass Index (BMI) of the family members is within the normal range, and none of them is overweight or obese. Although Mr. Sharma has a family history of hypertension, his current blood pressure is normal. The family is health-conscious and regularly participates in recreational and health-promoting activities.

श्री कनव शर्मा, आयु 35 वर्ष, एक महानगर में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते हैं। वह धूम्रपान नहीं करते हैं और शराब का सेवन भी नहीं करते हैं। परिवार के सभी सदस्यों का समग्र बॉडी मास इंडेक्स (BMI) सामान्य सीमा के भीतर है और उनमें से कोई भी अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त नहीं है। यद्यपि श्री शर्मा के परिवार में उच्च रक्तचाप का इतिहास है, लेकिन वर्तमान में उनका रक्तचाप सामान्य है। परिवार स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है और नियमित रूप से मनोरंजक तथा स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित गतिविधियों में भाग लेता है।

Questions:

प्रश्न:

- (i) Summarize the above case highlighting the key health and lifestyle characteristics of Mr. Kanav Sharma and his family.

उपरोक्त मामले का सार प्रस्तुत कीजिए तथा श्री कनव शर्मा और उनके परिवार की प्रमुख स्वास्थ्य और जीवनशैली विशेषताओं को रेखांकित कीजिए।

- (ii) Classify the risk profile of Mr. Sharma and his family from the perspective of health insurance underwriting. Estimate a suitable sum insured, and corresponding premium for health insurance.

स्वास्थ्य बीमा अंडरराइटिंग के दृष्टिकोण से श्री शर्मा और उनके परिवार की जोखिम प्रोफाइल का वर्गीकरण कीजिए। स्वास्थ्य बीमा के लिए उपयुक्त बीमित राशि तथा संबंधित प्रीमियम का अनुमान लगाइए।

6. Describe the key players in the health insurance sector in India and explain their roles in the health insurance market. Explain the benefits and significance of long-term care insurance in providing financial protection against prolonged healthcare expenses.